

1/233601/2024

संख्या: 2-78/ई-25681/VII-A-2//2024/233(उद्योग) 2008 टीसी-1

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
सिडकुल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 16 अगस्त, 2024

विषय:-राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल) के स्थायी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिडकुल के पत्रांक-372/प्र0नि0/सिडकुल/2024 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति के क्रम में सिडकुल में कार्यरत स्थायी कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्तानुसार पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता दिनांक 01.08.2024 से अनुमन्य होगा।
2. इस मद में होने वाले व्यय को सिडकुल द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाएगा।
3. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-55/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15.02.2019 में उल्लिखित शेष अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल) के अधिकारियों/कार्मिकों पर भी यथावत् लागू होंगी।

2 - यह आदेश वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-1/231801/2024, दिनांक 03.08.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

Signed by Vinay Shankar  
Pandey

Date: 16-08-2024 13:41:26

(विनय शंकर पाण्डेय)  
सचिव।

संख्या: (1)/ई0-25681/VII-A-2/233(उद्योग) 2008 टीसी-1/2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

24

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-7 / वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

Signed by Shiv Shankar  
Mishra

Date: 16-08-2024 14:38:17

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)  
उप सचिव।